

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2016—माघ 28, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2016

क्र. एफ 3-10-2008-एक-10.—सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा श्री शिवराम पटना को संभागीय सतर्कता समिति, सागर संभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था. जिसे अधिसूचना राजपत्र दिनांक 25 मार्च 2015 में प्रकाशन किया गया था.

2. श्री पटना द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को अपना त्यागपत्र माननीय लोकायुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया. माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा इस त्यागपत्र को दिनांक 22 दिसम्बर 2015 से स्वीकृत किया गया है.

3. राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क के प्रावधानों के अन्तर्गत इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.